


⑦ Statutory Liquidity Ratio (SLR) (वैधानिक तरलता अनुपात)

- # CRR → 4.5% → 10%
- # SLR → 18% → 30%
- # ₹100 (NDTL) → ₹4.5 (CRR) → ₹18 (SLR) → ₹77.5 (SLR) → 60%



- # Banking Regulation Act, 1949 → Section 24(2A)
- # Compulsory (अनिवार्य)
- # Cash & Liquid Assets
↓ (तरल परिसंपत्ति)
Gold, FC, GB
- # 2007 → Min^m Limit X
Max^m → 40%

Sterilization means) ⑧ Open Market Operation

\$ → मांग (DD) ↑
 आपूर्ति (SS) ↓
 ↑
 कीमत (Price)

(मुक्त बाजार प्रचलन /
खुले बाजार की प्रक्रिया)

↓
RBI → \$ → sell



Qualitative Instruments (गुणात्मक उपकरण)

- ① Margin Requirement
- ② ^{Quota} Rationing of Credit (Loan)
- ③ Consumer Credit Regulation
- Moral Pressure / Suasion
- Direct Action

Banker को अपने
कुल पूँजा → 40% →

Priority Sectors Lending Norms
(प्राथमिकता वाले क्षेत्र) दिये जाने वाले
ऋण संबंधी
नियम

- ① Agriculture (कृषि)
- ② Micro & Small Industries (सूक्ष्म एवं लघु उद्योग)
- ③ Housing (आवास)
- ④ Education (शिक्षा)
- ⑤ Export Credit (निर्यात ऋण/स्वाय)
- ⑥ Renewable Energy (नवीकरणीय ऊर्जा)
- ⑦ Social Infrastructure (सामाजिक बुनियादी ढांचा/अवसंरना)
- ⑧ Misc. (अन्य)

Money Supply ↓ → (मुद्रास्फीति) Inflation

Dear/Tight Monetary Policy
(सख्त मौद्रिक नीति)

Hawkish (हॉकिश)

Bank Rate (बैंक दर) ↑
Repo Rate ↑
MSF ↑
Reverse Repo Rate ↑
SDF ↑
CRR ↑
SLR ↑
→ SELL ✓
→ BUY

Deflation (अवस्फीति) ← MS ↑

Bank Rate (बैंक दर) ↓

Repo Rate ↓

MSF ↓

विपरीत रेपो दर ↓

SDF ↓

CRR ↓

SLR ↓

→ SELL
→ BUY ✓

Cheap Money -
-tary Policy
(सहज मौद्रिक नीति)

Dovish

Policy Rates

Policy Repo Rate	6.50%
Standing Deposit Facility Rate	: 6.25%
Marginal Standing Facility Rate	: 6.75%
Bank Rate	: 6.75%
Fixed Reverse Repo Rate	: 3.35%

Reserve Ratio

CRR	4.50%
SLR	18.00%

Dovish

Rate cut!



Rate hike!

Hawkish



मौद्रिक नीति के प्रकार

Accommodative
मिलनसार/Dovish
डोविश/Cheap
सस्ती/Loose ढीली

Neutral
तटस्थ

Hawkish
हॉकिश/Dear/Tight
महंगी